

Modipon Limited

Hapur Road, Modinagar, Ghaziabad -201 204 (UP) M- +91-9582388706

14.08.2023

To
The BSE Limited
The Listing Department
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street, Mumbai-400 001

Subject: Intimation of newspaper advertisement

Reference: Scrip Code: 503776

Dear Sir/ Maam,

Pursuant to regulation 30(6) read with regulation 47(1)(d) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith advertisement published in newspapers – Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) edition of August 13, 2023, informing the members that the Company proposes to make an application to the Central Government for obtaining approval of the members under section 196, 203 read with Schedule V and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, for reappointment of Mr. Manish Modi (DIN: 00030036), being Non Resident Indian, as the Chairman & Managing Director of the Company for a period of five years effective June 01, 2023.

This is for your kind information & records.

Thanking you

Yours truly,

For MODIPON LIMITED

Manish Modi Managing Director

Encl: As above

CIN: L65993UP1965PLC003082 E-mail: modipon@modimangal.in Website: www.modipon.net

(Rupees in lacs)



MODIPON LIMITED

Regd. Off.: Hapur Road, Modinagar, Ghaziabad-201 204, District: Ghaziabad (UP CIN: L65993UP1965PLC003082, Phone: +91-9582388706 E-mail: modipon@modimangal.in Website: www.modipon.net

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Section 201 of the Companies Act, 2013 ("the Act") that Modipon Limited (the "Company") intends to make an application to the Central Government, in accordance with the provisions of section 196 read with Part I of Schedule V and other applicable provisions, if any of the Act, for seeking its approval for re-appointment of Mr. Manish Modi (DIN: 00030036), being Non Resident Indian, as the Chairman & Managing Director of the Company for a period of 5 years effective June 01, 2023.

This Notice shall also be available on the website of the Company at http://www.modipon.net/# and on the website of stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

For Modipon Limited Place: New Delhi Vineet Kumar Thareja Date : August 12, 2023 Company Secretary & Compliance Officer

CAPROLACTAM CHEMICALS LIMITED

(CIN: L24110MH1988PLC049683) Regd. Office: B-31, MIDC, Mahad, Dist. Raigad - 402302 E-mail: caprolactam@gmail.com, website: www.caprolactam.co.in Extract of Standalone unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2023 (Rs. In Lakhs)

Particulars	Qtr. Ended	Qtr. Ended	Year Ended
Particulars	30.06.2023 Un Audited	30.06.2022 Un Audited	31.03.2023 Audited
Total Income from Operations (net) Net Profit / (Loss) from ordinary activities	220.84	275.55	985.67
after Tax Net Profit / (Loss) for the Period after Tax	29.91	95.38	254.85
(after Extra Ordinary Items) Equity Share Capital	29.91	95.38	254.36
(Face Value Rs. 10/- per share) Reserves (excluding Revaluation Reserves as	460.00	460.00	460.00
shown in the Balancesheet of Previous Year) * Earnings Per Share (before and after extra Ordinary items) (of 10/- each)	34	92	74.17
Basic#	0.65	2.07	5.54
Diluted #	0.65	2.07	5.54
Note -		X:	0

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly unaudited Financial Results Filed with the Stock Excanngeunder Regulation 33 of the SEBI (Listing Obiligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on www.bseindia.com and on the Company website www.caprolactam.co.in . The above Unaudited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on August 12,2023. The Statutory Auditors have

Place : Mahad Z S Bhanushali (Chairman Cum M. D.)(DIN NO. 00663374) Dated : August, 12, 2023

carried out Limited Review of the above Financial Results.

B.P. CAPITAL LIMITED	
Regd. Off.: Plot No- 138, Roz- Ka-Meo Industrial Area, Sohna (Distt. Mewat), Ha CIN: L74899HR1994PLC072042	ryana-122103"
Phone: 0124-2362471; Website: www.bpcapital.in, Email: bpcapitallimited@ EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS	gmail.com
FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023	(Rs in Lacs)

Quarter Quarter

Year

S. No.	Particulars	30.06.2023 (Unaudited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
1.	Total income from operations	0	0	0
2.	Net Profit / (Loss)for the period(before Tax,	501	9810/0	98240
0	Exceptional and/or Extraordinary items)	(3.04)	(3.51)	(14.05)
3.	Net Profit / (Loss)for the period before Tax(after	770005	3803045800	
	Exceptional and/or Extraordinary items)	(3.04)	(3.51)	(14.05)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after	V. (0.000 to 0.000 to	546-643-644	TO THE OWNER OF THE
	Exceptional and/or Extraordinary items)	(3.04)	(3.51)	(14.05)
5,	Total Comprehensive Income for the period		10.110.11	
97.7	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)			
	and Other Comprehensive Income (after tax)]	(3.04)	(3.51)	(14.05)
6.	Equity Share Capital	601.18	601.18	601.18
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown			556500000
M400	in the Balance Sheet of previous year)	39		(121.10)
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			W 650
	Basic:	(0.05)	(0.06)	(0.23)
	Diluted:	(0.05)	(0.06)	(0.23)

ended June 30, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirments) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Unaudite Financial Results is available at BSE's websites, viz., www.bseindia.com and on the Company's website www.bpcapital.in

For and on behalf of the Board of Directors of B.P. Capital Limited Place: Haryana

Aditya Aggarwal Managing Director Date: 12th August, 2023 DIN: 08982957

HOWARD HOTELS LIMITED Regd Office: - 20, Maurya Complex, B-28 Subhash Chowk, Laxmi Nagar, New Delhi-110092

Corp. Off.: Hotel Howard plaza, Fatehabad Road, Agra-282001 CIN- L74899DL1989PLC038622, Tel: 0562-404-8600, Fax: 0562-404-8666 Email: info@howardhotelsltd.com, Website: www.howardhotelsltd.com EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

		_		ths except pe	
S.	B. W. W. W.		Quarter End	d	Year Ended
No	Particulars	June 2023 (Unaudited)	June 2022 (Unaudited)	March 2023 (Audited)	31/03/2023 (Audited)
1	Total income from operations	256.89	157.57	340.31	1033.50
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	19.70	(21.66)	91.86	117.10
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	19.70	(21.66)	91.86	117,10
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items)	19.70	(21.66)	48.90	74.14
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	19.70	(21.66)	52.79	78.03
6	Equity Share Capital	911.32	911.32	911.32	911.32
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	NA.	NA.	NA.	NA.
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) for continued and dicontinued operations Basic : Diluted:	0.22 0.22	(0.24) (0.24)	0.54 0.54	0.81 0.81

Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the quarterly results are available on the stock exchange website i.e. www.bseindia.com and on Company website www.howardhoteslitd.com

For and on behalf of the Board of Directors of Howard Hotels Limited

Standalone

Quarter Year Correspondin

Nirvikar Nath Mittal Place : Agra Date: 12.08.2023 (Whole Time Director) DIN: 00536470

DYNAMIC MICROSTEPPERS LIMITED

Reg Office: 506. Marathu Arcade, Above Axis Bank, Near Garware Subhash Road, Vile Parle (East) Mumbai - 400 057, Maharashtra, India. Tel No.: 022-26842631 Fax No.: 022-26842631 Email id: dynamicmicrostepperslimited@gmail.com Website: www.dynamicmicrosteppers.com

Particulars

CIN: L45206MH1985PLC036261

EXTRACT OF THE STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023 Amount in INR

		ended 30.06.2023	ended 31.03.2023	ended in the Previous year 30.06.2022
1	Total Income from operations	-		-
2	Net Profit (+)/Loss for the period (before tax,			
	Exceptional and/or Extraodinary items)	(497,871)	(995,052)	(447,210)
3	Net Profit (+)/Loss for the period before tax			
	(after Exceptional and/or Extraodinary items)	(497,871)	(995,052)	(447,210)
4	Net Profit (+)/Loss for the period after tax			
	(after Exceptional and/or Extraodinary items)	(497,871)	(995,052)	(447,210)
5	Total Comprehensive Income for the period			
	[(Comprising profit/Loss for the period			
	(after tax) and other Comprehensive Income			
	(after tax)]		(995,052)	
6	Equity share capital	34,488,000	34,488,000	34,488,000
7	Reserves (excuding Revaluation Reserve)			
	as shown in the Audited Balance Sheet of			
	the previous year	-	(45,062,673)	-
8	Earning per share (of Rs. 10/- each)			
	for continuing and discontinued operations-			
	a. Basic:	(0.14)	` '	(0.13)
	b. Diluted:	(0.14)	(0.29)	(0.13)

Notes: The above is an extract of the detailed format of quarterly un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly un-audited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and the website of the Company (www.dynamicmicerosteppers.com)

Previous year's figures have been regrouped/rearranged wherever necessary to make them comparable. The above results, has been reviewed and recommended by the Audit Committee

and approved by the Board of Directors at its meeting held on 11th August, 2023 as per Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. For Dynamic Microsteppers Limited Place : Mumbai Sd/- Ashwin Shah Date: 11/08/2023 **Director DIN: 03115009**

TRIGYN TECHNOLOGIES LIMITED

Regd. Office: 27, SDF I, Seepz, Andheri (East), Mumbai - 400096 Tel: +91 22 6140 0909 Fax: +91 22 2829 1418 Website: www.trigyn.com Email: ro@trigyn.com • CIN - L72200MH1986PLC039341

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS											
ı	FOR THE QUARTER ENDED JUNE			Rupees in lakhs)		FOR THE QUARTER ENDED JUNI			Rupees in lakhs)		
ы		Quarter	•	Year ended	- 81		rended	Year ended			
Sr. No.	Particulars	30 June 2023 Unaudited	30 June 2022 Unaudited	31 March 2023 Audited	Sr. No.	Particulars	30 June 2023 Unaudited	30 June 2022 Unaudited	31 March 2023 Audited		
1	Total income from Operations	3,126.82	2,699.30	17,251.95	1	Total income from Operations	32,250.08	28,527.40	127,272.44		
2	Net Profit / (Loss) for the period				2	Net Profit / (Loss) for the period					
П	(before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	(727.45)	(855.87)	700.93		(before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	1,882.54	1,126.34	5,823.50		
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax				3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax					
П	(after Exceptional and Extraordinary items)	(728.51)	(857.45)	695.38		(after Exceptional and Extraordinary items)	1,882.54	1,126.34	5,823.50		
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax				4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax					
П	(after Exceptional and Extraordinary items)	(707.92)	(852.48)	430.17		(after Exceptional and Extraordinary items)	1,208.99	593.84	3,467.72		
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss)				5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss)					
П	for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(700.25)	(845.59)	347.81		for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,162.61	2,364.39	7,339.18		
6	Equity Share Capital	3,078.57	3,078.57	3,078.57	6	Equity Share Capital	3,078.57	3,078.57	3,078.57		
7	Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of				7	Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of					
П	previous accounting year			15,840.90		previous accounting year			65,021.07		
8	(i) Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				8	(i) Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)					
	(a) Basic:	(2.30)	(2.77)	1.40		(a) Basic:	3.93	1.93	11.26		
П	(b) Diluted:	(2.30)	(2.77)	1.40		(b) Diluted:	3.93	1.93	11.26		
No	tes:	- 1			Notes:						
2	The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results file of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. are available on the websites of the Stock Exchange(s) viz. www.bseindia.c www.trigyn.com Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and	inancial Results the listed entity		The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results file of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. are available on the websites of the Stock Exchange(s) viz. www.bseindia.c www.trigyn.com Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit are	The full format or om and www.ns	f the Quarterly F eindia.com and	inancial Results the listed entity				

Notes to Standalone Financials Results The unaudited financial statement for the quarter ended June 2023 has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on August 11, 2023. The financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS), the provisions of the Companies Act, 2013, and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India.

2 In terms of IND AS 108, the company is having a single reportable segment i.e. "Communication and information technology staffing support services"

The company has provided for gratuity and leave encashment expenses on proportionate as per actuarial valuation report for the year ended 31st March 2023.

Investments, Receivables and Loans and advances include balances in the accounts relating to overseas subsidiaries and step down overseas subsidiaries which were wound-up/liquidated/under liquidation in the earlier years and are fully provided for, are as under:

30th June 2023 31st March 2023 **Particulars Investments** Ecapital Solutions (Bermuda) Ltd* 50,972.96 50.972.96 Trigyn Technologies Limited, UK* 60.09 60.09 **Loans and Advances** Trigyn Technologies Limited, UK* 20.76 20.76 eVector Inc USA* 0.27 0.27 eCapital Solutions (Mauritius) Limited* 2.09 2.09 eVector India Private Limited* 0.10

*The company has carried forward in the book of accounts the balance of the above-mentioned overseas subsidiaries which has been wound up. The company is awaiting approval from the Reserve Bank of India for writing off these balances. The process fo obtaining necessary approval and permissions from the Reserve Bank of India (RBI) under FEMA regulations is in progress. In view of this, Investments, Loans & advances, and provision for doubtful debts and impairment in the value of investments are retained and other entries are given effect in the books of account which are subject to the approval of RBI. This matter is being carried forward for more than 7 years.

A) Implementation and Management of Cloud-Based Virtual Classroom System in Identified Schools in Andhra Pradesh

The total contract value of the Andhra Pradesh State Fibernet Limited (APSFL) project amounts to Rs. 160 Crores inclusive of GST. This comprises Rs. 80 crores for the supply of materials and installation of video conferencing equipment and the balance Rs. 80 crores towards operations and maintenance. The company has completed a major portion of the supply contract. Balance work at 59 schools, 1 District Studio and Central Studio is still pending for completion due to non-allotment of sites from APSFL. The Company has recognized revenue of Rs. 79.90 crores in respect of the supply contract which includes unbilled revenue of Rs. 49.73 lacs up to 30th June 2023. This is in line with IND AS 115 – (Revenue from contracts with customers) accounting for contracts based on completion of the performance obligation. Prepaid expenses include an amount of Rs. 340.81 Lakhs representing project work in progress in respect of this project. Against the milestone billings done of Rs. 79.40 crores, Rs. 17.90 crores have been received and balance of Rs. 61.50 crores is outstanding for more than 3 years. The Company is also holding an inventory of Rs. 2.22 crores as on 30th June 2023. The operation and maintenance part of the contract was taken up in February 2019. The management has not booked any Quarterly Guaranteed Revenue on this part of the contract amounting to Rs. 80 crores, in view of uncertainty of collection.

Keeping in view the old outstanding of Rs. 61.50 crores being carried forward and poor collection till date, the management is of the view that their decision for not accounting unbilled revenue for AMC charges is justified and proper due to uncertainty of collection In support of the management's stand, the company has obtained an opinion from a subject matter expert as of 31st March 2022. B) Design, Development, Implementation, Operation, and Maintenance of Smart Parking Solution at Nashik

Due to various reasons, there was no collection of tolls from the 15 commissioned parking sites in Nashik. The company is in discussion with Nashik Smart City Development Corporation Ltd to sort out various issues related to the Smart Parking Project. During

the quarter, the company has charged in the statement of Profit & Loss, the total expenditure of Rs. 45.09 lacs. The company has also amount of Rs. 27.90 lacs in respect of the capitalized portion of completed sites. The unamortized Capital Cost carried forward in the Balance Sheet as at 30.06.2023 of Rs. 7.44 Crores.

6 **Pending legal suits for recovery** a) Legal case filed by the company against Millennium Synergy Pvt. Ltd. and Iram Technologies Pvt. Ltd.

Major Contracts of the company

The company has filed a special civil suit for the recovery of the damages from the above-mentioned parties. The next hearing is on 12th September, 2023.

b) Case filed by Iram Technologies Pvt. Ltd. against the company Cheque bouncing case has been filed by Iram Technologies Pvt. Ltd. against the company in Small Causes Court, Bengaluru under Section 138 of the Negotiable Instruments Act. In lieu of the above cheque, the company had cleared the liability and had requested

the complainant to return the postdated cheques. However, the complainant has proceeded in filing the case against the company under Section 138 of the Negotiable Instruments Act. The company's lawyer presented arguments and filed written statements on behalf of the company. On 9th December 2021 relying on the purchase order, the Small Causes Court, Bengaluru had asked the company to deposit 20% of the purchase order value within 60 days. The company filed an appeal with Honorable High Court of Karnataka against the above order and obtained an interim stay on the order passed by the Small Causes Court, Bengaluru. On 11th July, 2023, the Counsel of accused filed a memo. The matter was stayed and is posted for hearing on 9th November, 2023. c) Toshniwal Enterprises Control Limited (TECL) The company and TECL entered into an MOU on 24-April-2019 to work on the ONGC project. Insolvency proceeding against TECL was admitted on 22-11-2019 at NCLT - Kolkata. ONGC terminated the contract on 29-11-2019. The Company's advocate had filed

an application with NCLT in September 2020. There were certain defects raised by the Registry department while scrutinizing the file. The same was duly corrected by the company's advocate and the matter was heard by the NCLT Kolkata bench on April 8, 2021. The Bench condoned the delay in submitting the claim by the company. Further, it allowed the application of the company and directed the resolution professional to verify and accept the claim on its merit. NCLT has ordered the commencement of liquidation of the Toshniwal Enterprises Control Limited on 4th April 2022 and the stakeholders were called upon to submit their claim with proof. The matter was last heard on 27.06.2022 and Counsel appearing for Liquidator submitted the preliminary report and list of stakeholders. There has been no development in the case. d) Suit filed against ESDS Software Solution Pvt. Ltd. by the Company

The company had filed a suit in the Bombay High Court on August 2, 2019, appealing that the above party is restrained from terminating the consortium agreement and honor their commitments under the master service agreement. The court has appointed an arbitrator in the above matter. The cross examination of witness was carried out on November 29, 30 and December 1, 2021. The hearing for cross examination of claimant witness was done on 05/06-08-2022. The process of re-examination of claimant has started. The virtual meeting was held on February 3, 2023, for production of certain documents by the respondent based on which the final judgement will be given by the arbitrator. On 17th and 18th March, 2023 Arbitration meeting was held to hear the final arguments by claimant and certain document were requested to be produced from STPI by the Justice. On 10th June 2023, Arbitration Meeting with regard to the documents received from STPI for final hearing of Respondent's arguments (and Claimant's arguments in rejoinder) was held. On 15th July, 2023, a meeting was held for hearing the arguments of the Respondent. Subsequently to conclude the argument by Respondent and hear the final arguments of claimant, Arbitration meetings are fixed on 1st September, 2023 and 2nd September, 2023.

I) Coimbatore Smart City Limited

e) Writ Petitions filed by the company relating to Tamil Nadu projects

for four weeks' time, thereafter we have not received any communication from the authority.

The company had bid for the Selection of a System Integrator to Design, Supply, Implement, Operate, & Manage Integrated Command and Control Centre in Coimbatore Smart City Limited. The company's bid got rejected and therefore a Writ Petition challenging the disqualification was filed in Madras High Court. The writ petition was filed on 19th February 2021 with Madras High Court. The date of hearing for admission of the petition was 4th March 2021. The petition is pending for admission and a reply has been sought from the other party.

II) Tiruppur Smart City Limited

The company had bid for the Selection of a System Integrator to Design, Supply, Implement, Operate, & Manage Integrated Command and Control Centre in Tiruppur Smart City Limited. The company's bid got rejected and therefore a Writ Petition challenging the disqualification was filed in Madras High Court. The writ petition was filed on 11th February 2021 with Madras High Court. The date of hearing for admission was 23-02-2021. The petition is pending for admission and a reply has been sought from the other party. The management has evaluated all the pending legal cases in consultation with their legal counsel and they believe that they have got a good case and expect a favorable outcome in the majority of the above cases. III) ISYX Technologies India Private Limited.

Trigyn had received a notice from District Legal Service Authority, Krishna at Machilipatnam under Commercial Courts Act 2015 for mediation on claim for Rs. 5,08,87,381 Principal and Rs. 2,41,66,089 as interest calculated till 28-10-2022. We had requested

Other expenses of the Company includes ECL provision Rs. 2.45 crores for the current quarter including Rs. 2.25 crores for APSFL. The cumulative ECL provision made is Rs. 34.70 crores including Rs. 33.03 crores for APSFL.

The company was served with an Audit report for its Andhra Pradesh unit under Section 65 (6) of the CGST Act 2017 under rule 101 (5) on 5th April 2021 for FY 2017-18 and FY 2018-19. The company did not agree with the contents of the said audit report and filed a detailed reply on 21st May 2021 raising various preliminary objections along with a rebuttal to various audit paras. The GST department issued one more audit report titled "Final Audit Report" dated 15th June 2021. The company replied to the final audit report vide its letter dated 26th June 2021 raising various preliminary objections against the said final audit report. The department issued a pre-SCN Consultation Notice dated 4th August 2021 to the company wherein tax amounting to Rs. 36.39 lakhs, interest amounting to Rs. 182 Lakhs and a penalty amounting to Rs. 102 Lakhs were quantified during the audit. The company paid Rs. 22.33 lakhs under protest against the said demand. The company has submitted to the GST department that the liability of tax, interest. and penalty as mentioned in Form DRC-01A is not acceptable. On 18th February 2022 GST department issued SCN and the company has replied on the same. The case has been settled in May 2023 and Company has received an order from the GST authorities dropping substantial demand. For the balance demand of Rs. 38.44 Lakhs, the company has filed an appeal.

A search u/s 132 of the Income Tax Act was conducted by the Income Tax department on 29th August 2018. Thereafter the notices were issued for the block assessment for the period 2014-15 to 2019-20 (7 assessment years). The company has received the assessment orders for said Block raising a fresh demand of Rs.3.14 crores. The main reason for the demand is on account of adjustments to the returned income made at the processing stage and in one case dividend distribution tax credit has not been considered by the department which has resulted in wrongful addition. There being mistakes apparent from records, the company filed appeals/rectifications wherever applicable in consultation with the company's tax advisors. 10 The full impact of COVID-19 remains uncertain and could be different from the estimates considered while preparing these Standalone Financial Statements. The company will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.

11 During the year, the company project teams and employees were "Working from Home". Some of the Group's projects particularly the Cloud-Based Virtual Classroom System at Andhra Pradesh and toll collection from the Parking project at Nashik were badly affected on account of the prolonged lockdown. The management of respective companies of the Group has evaluated the possible impact of this pandemic on the business operations and the financial position of the Group where fixed expenditures such as permanent staff salary, office and godown rent, finance costs, manpower agency charges, and others which have been accounted but could not be covered by revenue billing due to the prolonged lockdown. 12 The new code on Social Security, 2020 (the Code) has been enacted, which would impact the contributions by the Company towards Provident Fund and Gratuity. The effective date from which the changes are applicable is yet to be notified. The Ministry of Labour and Employment (the Ministry) released draft rules for the Code on November 13, 2020, and has invited suggestions from stakeholders which are under active consideration by the Ministry. The Company will complete its evaluation and will give appropriate

14 The balance of associate companies of United Telecoms Limited (UTL) in the books of Trigyn Technologies Limited as of 30th June 2023 is as follows:

13 The exceptional item for the guarter & year to date ended represents provision for the loan given to the subsidiary. Amount (Rs. in lakhs) Receivable from Promuk Hoffman International Pvt. Ltd. 70.00 Receivable from United Telelinks (Bangalore) Ltd. 1.32 Rental Advance to United Telecoms Limited 68.21

15 Earnings per share for the quarters ended June 30, 2023, March 31, 2023 and June 30, 2022 are not annualised.

Receivable from United Telecoms Limited given as an advance for bidding for new project and providing expertise

impact in its financial statements in the period in which the Code becomes effective and the related rules are published.

16 Figures of the previous quarter/period/year have been regrouped and reclassified, wherever considered necessary to correspond with the current period presentation.

Notes to Consolidated Financials Results

Security Deposit to United Telecoms Limited for premises rented Security Deposit to Aktivolt Celtek Pvt Ltd. for premises rented

1 The unaudited financial statement for the guarter ended June 2023 has been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on August 11, 2023. The financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS), the provisions of the Companies Act, 2013, and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India.

2 In terms of IND AS 108, the company is having single reportable segment i.e. "Communication and information technology staffing support services".

The company has provided for gratuity and leave encashment on proportionate basis as per actuarial valuation report for the year ended 31st March 2023, except in case of overseas subsidiaries where provision is made as per local applicable laws. 4 The financial statements of subsidiaries Leading Edge Infotech Limited (LEIL) and Trigyn Technologies India Private Limited (TTIPL) have been prepared on going concern basis despite the negative net worth of the Company as at the guarter-end. As of 30th June

2023, both the above companies are not in a position to meet their commitments on their own and are totally dependent on the financial support of the Holding company. The management is in the process of taking steps to revive the business and is also exploring other alternates such as merger/amalgamation/liquidation. Since both the companies are supported by the holding company, the financial statements have been prepared on going concern basis despite the negative net worth of these Companies at the guarter-end. 5 During the year, the Group's project teams and employees were "Working from Home". Some of the Group's projects particularly the Cloud-Based Virtual Classroom System at Andhra Pradesh and toll collection from the Parking project at Nashik were badly

affected on account of the prolonged lockdown. The management of respective companies of the Group has evaluated the possible impact of this pandemic on the business operations and the financial position of the Group where fixed expenditures such as permanent staff salary, office and godown rent, finance costs, manpower agency charges, and others which have been accounted but could not be covered by revenue billing due to the prolonged lockdown. 6 The full impact of COVID-19 remains uncertain and could be different from the estimates considered while preparing these consolidated Financial Statements. The Group will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions. 7 The quarterly results of eight subsidiaries namely Trigyn Technologies Inc, USA, Trigyn Technologies Schweiz GmbH, Switzerland, Trigyn Technologies (India) Private Limited, Leading Edge Infotech Limited, Trigyn EduExpert Pvt Ltd, Trigyn e-Governance Pvt

Ltd, Trigyn Fin-Tech Pvt Ltd and Trigyn Healthcare Pvt Ltd are management certified. 8 Figures of the previous quarter have been regrouped and reclassified, wherever considered necessary to correspond with the current period presentation.

Place: Chennai Date: August 11, 2023 For TRIGYN TECHNOLOGIES LIMITED R. Ganapathi **Chairman & Non-Executive Director**

financialen epar.in

Sr. No.

New Delhi

34.55

29.50

500.00

(Rs. in Lakhs)

20.29

MODIPON LIMITED

Regd. Off.: Hapur Road, Modinagar, Ghaziabad-201 204, District: Ghaziabad (UP) CIN: L65993UP1965PLC003082, Phone: +91-9582388706 E-mail: modipon@modimangal.in Website: www.modipon.net

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Section 201 of the Companies Act, 2013 ("the Act") that Modipon Limited (the "Company") intends to make an application to the Central Government, in accordance with the provisions of section 196 read with Part I of Schedule V and other applicable provisions, if any of the Act, for seeking its approval for re-appointment of Mr. Manish Modi (DIN: 00030036), being Non Resident Indian, as the Chairman & Managing Director of the Company for a period of 5 years effective June 01, 2023.

This Notice shall also be available on the website of the Company at http://www.modipon.net/# and on the website of stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

For Modipon Limited Place: New Delhi Date : August 12, 2023

Vineet Kumar Thareja Company Secretary & Compliance Officer

(रु. लाख में)

बी.पी. कैपिटल लिमिटेड 'पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं.138 रोज-का-मेव औद्योगिक क्षेत्र, सोहना (जिला मेवात), हरियाणा-122103" सीआईएन: L74899HR1994PLC072042 फोन: 0124-2362471, वेबसाइट: www.bpcapital.in, ईमेल: bpcapitallimited@gmail.com 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिगामों के अंश

क्र	विवरणों	समाच विषाही 30.06.2023 अलेखाचरीकित	लगान्त तिमाडी ३०.०६.२०२२ अलेखानरीकित	चनाच वर्ष 31.03.2023 लेखापरीक्षित
1.	परिचालन से कुल आय	0	0	0
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर से पहले, विशेष और ध्या असाधारण मदें)	(3.04)	(3.51)	(14.05)
3.	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशेष और/या असाधारण मदों के बाद)	(3.04)	(3.51)	(14.05)
4.	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष और/या असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय अवधि (कर के बाद) के	(3.04)	(3.51)	(14.05)
777	लिए संयुक्त लाग (हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(3.04)	(3.51)	(14.05)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	601.18	601.18	601.18
7.	रिजर्व (पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में दिखाए गए अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	*	×	(121.10)
8.	प्रति शेयर आय (रु.10/- प्रत्येक) (जारी और बंद संचालन के लिए)			901 05
	वेतिक डाइलूटड	(0.05)	(0.06)	(0.23)

टिप्पणी : उपरोक्त विवरण सेवी (सुवीकरण और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सबेंजों के साथ दायर किए गए 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वितीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है।उपरोक्त अलेखापरीक्षित वितीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.bpcapital.in पर उपलब्ध है। कृते एवं बी.पी. कैपिटल लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

आदित्य अवायाल प्रबंध जिदेशक

रवान : हरियाणा दिनांक: 12 अवस्त, 2023 डीआईएन : 08982957

ऋण बसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) प्रथम तल एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़ (तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्पेस आबंटित) बाद सं. : UA/321/2019

प्रपत्र स. - 03 (विनयम-१५ (१) (क) /१६ (३) दख

ऋण वसली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली. 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19(4) के तहत सम्मन Exh. No.: **19512** बनाम

विकल्प सक्सेना

सिवा में.

(1) विकल्प सक्सेना D/W/S/O- मकान नंबर 10 ∕ 65, राज नगर गुरुद्वारा के पास, गाजियाबाद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश अन्य पताः विकल्प सक्सेना सी/ओ इलेक्ट्रोस्टील्स लिमिटेड 312—314, तीसरी मंजिल, जसोला डिस्टिक्ट सेंटर, डीएलएफ टावर बी, दिल्ली—110025 सेंट्रल, दिल्ली-110025 अन्य पताः विकल्प सक्सेना फ्लैट नं. 1103, सूषमा ग्रीन विस्टा, टावर बी, 11वीं मंजिल, ढकोली जीरकपुर एसएएस नगर पंजाब-160104 साहिबजादा अजीत सिंह नगर / मोहाली / अजीतगढ, पंजाब–160104

जबकि. ओए / 321 / 2019 माननीय पीठ अधिकारी / रजिस्टार के समक्ष 31–07–2023 को पेश किया गया था।

जबिक, यह माननीय न्यायाधिकरण रु. 4492015 / — की ऋण वसली के लिए आपके विरुद्ध दाखिल

किए गए (ओए) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन / नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(यों) को निम्न निर्देश भी दिया जाता

i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त

सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तृत करें ; iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन का निस्तारण लम्बित रहने तक, प्रत्याभृत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक उक के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा

आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है : iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभृति हित सुजित किया गया है तथा / अथवा मूल आवेदन के क्रमांक उक के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर,

न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे : v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभृति

हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेत् जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक **24–11–2023 को पूर्वा. 10.30** बजे **रजिस्ट्रार** के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

दक्षिण रेलवे

सिग्नल एवं दूरसंचार/मदुरई मंडल

ई-निविदा सूचना सं. U-SG-04-

2023-24 तिथि: 2.8.2023

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल

सिग्नल एवं दुरसंचार अभियंता, दक्षिण

रेलवे, मदुरई मंडल द्वारा हमारी ई-निविदा

पोर्टल www.ireps.gov.in में दी गई

विस्तृत निविदा सूचना के अनुसार निम्न

कार्यों के लिये ई-निविदा आमंत्रित है।

आवेदन करने के इच्छुक निविदाकारों को

ई-निविदा पोर्टल www.ireps.gov.in में

सचीकरण कराना होगा तथा केवल ऑन

लाइन निविदा ही स्वीकार की जाएगी। बंद

होने की तिथि एवं समय 25.8.2023 के

11.00 बजे है। सभी संबंधित कागजात तथा

समर्थक दस्तावेज स्कैन बार प्रस्ताव के साथ

कार्य का नामः डिण्डीगुल यार्ड में वर्तमान

टैक सर्किट के साथ एमएसडीएसी का

Follow us on: * twitter.com/GMSRailway

दक्षिण रेलवे

पलक्कड मंडल

ई-निविदा सूचना संः पीजीटी /

प्रस्तुत करनी होगी।

मंडल रेलवे प्रबंधक

(एस एंड टी), मदुरई

अपलोड की जाएगी।

प्रावधान।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 01–08–2023 को दिया गया। सम्मन जारी करने हेतू प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

Finance Limited

ऋण खाता सं

HOU/AGR/1215/

257118, &

NHL/AGR/1215/255944,

बी,ओ,: आगरा

स्थान : आगरा, दिनाँकित : 10-08-2023

कब्जा प्रत्येक खाते के समझ वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है।

254797. HOU/AGR/1215/ चौधरी (उधारकर्ता)

कर्जदार/सह-कर्जदार/

गारंटर का नाम

श्री डाल चंद

और श्रीमती

मोहन वती

ऋण बसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डी३४१४टी २) प्रथम तल एससीओ ३३-३४-३५, सेक्टर-१७ए, वंडीगढ़ (तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्पेस आबंटित)

प्रयत्र स. - ७५ [बिानयम-१५ (१) (क) / १६ (४) दस्व

वाद स₋ : UA/159/2019 ऋण वसली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली. 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2क) के साथ पठित अधिनियम की घारा 19(4) के तहत सम्मन Exh. No.: 18855 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

> वताम परवेज अख्तर ...

सिवा में. **3(i) मैसर्स सरवोत्तम रियलकॉन प्राइवेट लिमिटड**, सी–170 प्रीत विहार नई दिल्ली–110092 3(ii)मैसर्स सरवोत्तम रियलकॉन प्राइवेट लिमिटड,

, कार्पोरेट ऑफिसः प्रथम तल, ए—60सी, सेक्टर 63, नोएडा—201301 (यू.पी.) सम्मन जबिक, ओए / 159 / 2019 माननीय पीठ अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष **29–05–2023** को पेश

किया गया था। जबिक, यह माननीय न्यायाधिकरण रु. 3784835 / — की ऋण वसूली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए गए (ओए) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन / नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)।

i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए ; ii) मुल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त

अधिनियम की धाराँ 19 की उप–धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(यों) को निम्न निर्देश भी दिया जात

, सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तत करें : iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन का निस्तारण लम्बित रहने तक, प्रत्याभृत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक उक के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथ आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है :

iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा / अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पटटा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे ; v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखेने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभृति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतू जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुँहैया कराने तथा दिनांक 05-09-2023 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपरिथति में किया जाएगा। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 26-06-2023 को दिया गया।

Particulars

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or

Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or

Net Profit / (Loss) for the period after Tax, (after Exceptional and/or

Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for

the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))

Earnings Per equity Share(of Rs.10/each) (for continuing and

Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016 as amended.

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली—110001,

फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

आगरा शाखा:- पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल,

सुइट नंबर 104-105, ब्लॉक नंबर 38/4ए, संजय प्लेस, आगरा- 282002

कब्जा लेने

10-08-2023

कब्जा लेने की तिथि

फ्लैट नंबर टी-4/ए-22, एफ.

एफ, नीलगिरि हाउस, टेकमैन

313, मौजा बिरजापुर, मथुरा,

Year

सिटी, फेज-5, खसरा नंबर

यू.पी.-281001

प्राधिकत अधिकारी, (वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

Three

date of the same and the rules thereunder are notified.

Total income from operations (net)

Reserves (exculding Revalution Reserve)

Extraordinary Items)

Extraordinary Items)

Equity Share Capital

(a) Basic:

Note:

(b) Diluted:

discontinuing opretations)

Date : August 12th, 2023

Place: New Delhi

सम्मन जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

ELITECON INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L16000DL1987PLC396234

Registered Office: 152, Shivani Apartments, Plot No. 63, I.P. Extension, Patparganj, Delhi - 110092

Phone: 9871761020, Email: admin@eliteconinternational.com, website: www.eliteconinternational.com

Unaudited Financial Results of Elitecon International Limited for the guarter ended June 30, 2023

prepared in compliance with the Indian Accounting Standards (IND-AS)

Above results were reviewed by Audit Committee and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 12th August, 2023.

Results are available on the Stock Exhange website (www.bseindia.com) and Company's website www.eliteconinternational.com.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 of the

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Ended Unaudited Financial

The above results have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 ('Ind AS') prescribed under

Section 133 of the Companies Act, 2013 read together with rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and

The impact of changes if any arising on enactment of the Code on Social Security, 2020 will be assessed by the Company after the effective

The statutory Auditors of the company have carried out a limited review of the result for the quarter ended June 30, 2023.

The Company has moved an application for the Voluntary delisting of its Securities from CSE on April 09, 2021.

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023 (Amount in Rs. Lakhs

दक्षिण रलव

कार्यालयः वरि. मंडल विद्युत अभियंता, इलेक्ट्रिक लोको शेड, एरोडे र्ड-निविदा सचना

निम्न कार्य के लिये ऑन लाइन निविदा आमंत्रित है: निविदा सं.: SA A RS ED_OT_23_24_17 तिथिः

10.8.2023 कार्य का विवरणः इलेक्ट्रिक लोको शेड, सलेम मंडल, दक्षिण रेलवे, एरोडे में उपलब्ध इलेक्टिक लोकोमोटिब्स के लोको वाशिंग तथा साइड बॉडी फिल्टर्स, कॉरीडोर के इन्टेरियर, सीएबीज तथा लॉक ऑउट ग्लासेस के लिये कार्य अनुबंध। निविदा से संबंधित सभी विवरण https://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।

डीईई/आरएस/ईडी कृत्ते, वरि. डीईई/आरएस/ईडी

Diluted:

Place: Gurgaon

Date: 12 August, 2023

Notes:

Follow us on: twitter.com/GMSRailway

Quarter Ended Quarter Ended Year ended

30-06-2023

(Unaudited)

(71.40)

(256.89)

(256.89)

(253.97)

121.00

(20.99)

(20.99)

(7,541.23)

30-06-2022

(Unaudited)

2,007.29

58.33

58.33

40.99

40.99

121.00

276.88

3.39

3.39

31-03-2023

(Audited)

5,833.21

(7,821.22)

(7.821.22)

(7.818.11)

(7,818.11)

121.00

276.88

(646.12)

(646.12)

SELAN EXPLORATION TECHNOLOGY LTD. SELAN

CIN: L74899HR1985PLC113196

Extract of Unaudited Financial Results for the guarter ended June 30, 2023

Read. Office: Unit No. 455-457, 4th Floor, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road, Gurgaon, Haryana-122018

E-mail: investors@selanoil.com; Tele Fax No.: 0124- 4200326

Website: www.selanoil.com

Ouarter Ended Ouarter Ended Ouarter Ended Year Ended **PARTICULARS** June 30, 2023 Mar 31, 2023 June 30, 2022 Mar 31, 2023 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Audited) 1. Total Income from Operations (net) 2,812 2,661 3,015 11,794 504 3,085 2. Net Profit / (Loss) from ordinary activities 535 908 504 3. Net Profit / (Loss) for the period after tax 535 908 3,085 (after Extraordinary items) 490 4. Total Comprehensive Income (after tax) 589 910 3,116 1,520 1,520 1,520 5. Equity Share Capital (face value Rs. 10/-) 1,520 6. Reserves (excluding Revaluation Reserves as 34,469 shown in the Balance Sheet of previous year)

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the stock exchange website: www.nseindia.com and www.bseindia.com and

5.97

www.selanoil.com

Suniti Kumar Bhat Chairman DIN: 08237399

MAX HEIGHTS INFRASTRUCTURE LIMITED

on the Company's website: www.selanoil.com.

CIN: L67120DL1981PLC179487 SD-65, Tower Apartment, Pitampura, New Delhi-110034, Tel: +91-11-2731 4646 Website: www.maxheights.com; Email: maxinfra1981@gmail.com **EXTRACT OF CONSOLIDATED & STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS**

FOR THE QUARTER AND THREE MONTHS ENDED JUNE 30, 2023 (Rs. in Lakh) Standalone

		2	Consolidated	N.	Grandarone			
S. No.	Particulars	For Quar	ter ended	For the Year ended	For Quarter ended		For the Year ended	
		30.06.2023 (Unaudited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	
1	Total Income from Operations	394.73	156.24	722.62	394.44	156.24	604.13	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(73.58)	28.64	(178.73)	(69.56)	29.16	23.78	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(73.58)	28.64	(178.73)	(69.56)	29.16	23.78	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(73.58)	28.64	(181.57)	(69.56)	29.16	20.91	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(69.56)	29.61	20.91	(69.56)	29.16	20.91	
6	Equity Share Capital	1,560.92	1,560.92	1,560.92	1,560.92	1,560.92	1,560.92	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			1,708.94			1,708.94	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic		0.19	0.13		0.19	0.13	
	2. Diluted		0.19	0.13	83	0.19	0.13	

The above is an extract of the detailed format of Consolidated & Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Consolidated & Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended. June 30, 2023 are available on the websites of the Stock Exchange viz. www.bseindia.com and the Company's website viz. www.maxheights.com

The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on August 12, 2023 and subjected to Limited Review by Statutory Auditors, pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.

The figures of the previous period/year have been regrouped/recast, wherever considered necessary, to conform to current year's classification 4 The Company operates in three segments i.e. Real Estate, Financing and Shares within one geographical region i.e. India.

The Limited review as required under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed and related Report does not have any impact on above Results and Notes for the Quarter and three months ended June 30, 2023

which needs to be explained and the Auditors have expressed their unqualified opinion.

For MAXHEIGHTS INFRASTRUCTURE LIMITED

Naveen Narang Chairman and Managing Director DIN: 00095708

Place: New Delhi

Date: August 12, 2023

पंजीकृत कार्यालय : एच.बी. दिवन टावर, 07 मंजिल, मैक्स हॉस्पिटल बिल्डिंग, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्लीआई-110034 कॉर्पोरेट कार्यालय - यूनिट नं. 237, 02वीं मंजिल, टावर-बी, स्पेजेज, सेक्टर-47, गुरुग्राम-122018, हरियाणा ईमेल : info@akg-global.com | फोन: +91-124-4267873 | फैक्स: +91-124-4004503 वेबसाइट: www.akg-global.com

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और स<u>मेकित वित्तीय परिणामों का विवरण</u>

AKG Exim Limited

Import • Export

For and on behalf of the Board of Directors

ELITECON INTERNATIONAL LIMITED

(VIPIN SHARMA)

Managing Director

DIN: 01739519

AKG EXIM

(राशि रु. लाख में स्टैण्डएलोन तिमाही तिमाही वर्ष तिमाद्री तिमाही तिमाही तिमाही 31 मार्च, 2023 30 जून, 2022 31 मार्च, 2023 31 मार्च, 2023 31 मार्च, 2023 30 जून, 2023 30 जून, 2023 30 जून, 2022 अलेखापरीक्षित नेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित लेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित लेखापरीक्षित प्रचालनों से कुल आय/राजस्व (निवल) 5,608.77 5,819.50 4,631.11 22,086.51 3,536.54 2,900.34 1,864.94 8,569.97 57.70 122.25 44.98 298.68 92.03 25.77 अपवादित मदों तथा कर के बाद अवधि/वर्ष हेत निव 247.79 127.97 46.09 96.36 38.64 28.20 66.15 19.43 अविध हेतु कुल व्यापक आय [अविधि/वर्ष (कर पश्चात) हेतु 127.97 46.09 96.36 38.64 247.79 28.20 66.15 19.43 लाभ तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल] 1,059.22 3,177.66 3,177.66 3,177.66 1,059.22 3,177.66 3,177.66 3,177.66 आरक्षितियां (पनर्मल्यांकन आरक्षिति को छोडकर जैसा कि गत के तलन पत्र में प्रदर्शित है)

1. उपरोक्त सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी, www.nseindia.com और कंपनी की कार्यात्मक वेबसाइटों यानी, www.akg-global.com पर भी उपलब्ध है।

0.36

0.36

0.78

0.78

0.09

कृते एवं हिते एकेजी एक्जिम लिमिटेड

0.18

0.40

महिमा गोयल

(प्रबंध निदेशक

(₹ in Lacs)

0.21

स्थानः गुरूग्राम दिनांक: 12 अगस्त, 2023

आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक)

बेसिक (वार्षिकीकृत नहीं)

डाइल्युटेड (वार्षिकीकृत नहीं)

AMIN TANNERY LIMITED

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति/यों हेत्)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण तथा पुनरनिर्माण एव

प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित तिथि को मांग सचना / एं जारी की थी. जिसमें संबंधित कर्जदार / रॉ. से. प्रत्येक खाते के समक्ष

बुंकि कर्जदार बकाया राशि चुकाने में विफल रहा है / रहे हैं, अतः कर्जदार / रॉ तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त

नेयमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति / यों का

एतदद्वारा, विशेष रूप से कर्जदार / रों को तथा जनसाधारण को सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति / यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करें तथा उक्त

सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार उक्त बकाया राशि एवं उस पर ब्याज हेत् पीएनबी हाजसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमाराधीन होगा। कर्जदार का ध्यान,

बकाया राशि

21-04-2023 तक

T, 19,88,238,04/-

रुपये उब्बीस लाख अट्टासी

हजार दो सौ अइतीस और

चार पैसे मात्र)

प्रत्याभत आस्तियों को छड़ाने के लिए. उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की चारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधान की ओर आकष्ट किया जाता है 1

वर्णित बकाया राशि, सुचना / ओं की तिथि / उक्त सूचना / ओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

मांग सचना

की तिथि

21-04-2023

Regd. Office: 15/288 C, Civil Lines, Kanpur - 208 001 (U.P); Ph. No.: +91 512 2304077, Email: share@amintannery.in, Web: www.amintannery.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

Three

Three

(₹ in Lacs)

ओटी / 25 / 2023 दिनांक 10-08-2023 भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उनकी ओर से वरिष्ठ मंडलीय अभियंता / समन्वयन / दक्षिण रेलवे / पलक्कड़	SI. No	Particulars	Months ended 30.06.2023 (Unaudited)	Months ended 31.03.2023 (Audited)	Months ended 30.06.2022 (Unaudited)	ended 31.03.2023 (Audited)
द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु ई—निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :	1.	Total Income	1,406.56	1,479.83	1,167.37	5,264.35
कार्य का नाम : एक वर्ष की एकावधि हेतु गति शक्ति कार्य इकाई पलक्कड़ के अंतर्गत कार्यों	2.	Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax	85.47	90.94	73.92	335.17
के लिये परियोजना पर्यवेक्षण सेवायें (पीएसएस) प्रदान करने के लिए प्रस्ताव हेतु	3.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary items)	14.48	20.31	9.16	51.02
अनुरोध (आरएफपी)। अनुमानित नकद मूल्य लाख में : रु. 168.60 /— बोली प्रतिभृति राशि : रु. 2,34,300 /—	4.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	14.48	20.31	9.16	51.02
निविदा समापन तिथि 15.00 ब जे : 25.08. 2023	5.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	10.76	13.64	6.59	36.35
समापन अवधि माह में : बारह 1. कार्यों / वस्तुओं / सेवाओं पर आधारित सभी	6.	Total Comprehensive Income for the period	9.23	12.68	9.29	40.17
अनुबंध समय—समय पर लागू होने वाले नवीन जीएसटी अधिनियम के अधीन होंगे। 2. ठेकाकर्ताओं / आपूर्तिकर्ताओं को स्वयं को जीएसटी प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत करना	.538	Equity Share Capital (Face value of ₹ 1/- per share) Basic and Diluted Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (Not Annualized *)	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73
होगा तथा 01.07.2017 के बाद से बिलों को प्रक्रमित करने हेतु जीएसटी पंजीकरण संख्या	i	Before Extraordinary Items (in Rs.)	0.01	0.01	0.01	0.03
प्रस्तत करनी होगी।	ii	After Extraordinary Items (in Rs.)	0.01	0.01	0.01	0.03

Note: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended standalone financial results are available on the Stock Exchange websites:- www.bseindia.com and on the Company's website www.amintannery.in. For and on Behalf of Board of Directors

Place: KANPUR

Vegarul Amin **Managing Director** SUPER TANNERY LIMITED

CIN No.: L19131UP1984PLC00621

0.30

0.30

0.15

0.15

Regd. Office: 187/170, Jajmau Road, Kanpur - 208 010 (U.P); Ph.: +91 7522000370, Fax: +91 512 2460792, Email: share@supertannery.com, Web: www.supertannery.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED				
SI. No.		Three Months ended 30.06.2023 (Unaudited)	Three Months ended 31.03.2023 (Audited)	Three Months ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)	ended	Three Months ended 31.03.2023 (Audited)	Three Months ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year ended	
1.	Total Income	4,938.76	5,797.66	5,525.00	22,665.35	4,809.63	5,951.96	5,455.63	22,905.04	
2.	Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax	425.36	587.15	414.58	1,860.19	423.38	616.49	416.92	1,900.53	
3.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary items)	161.75	263.95	141.99	758.91	156.37	281.77	143.76	786.44	
4.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	161.75	263.95	141.99	758.91	156.37	281.77	143.76	786,44	
5.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	119.82	188.30	99.99	605.88	114.44	206.36	101.76	633.41	
6.	Total Comprehensive Income for the period.	124.50	183.65	105.91	616.37	119.00	200.11	107.69	641.92	
7.	Equity Share Capital (Face value of ₹ 1/- per share)	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	
8.	Earnings Per Share(of ₹1/-each) (Not Annualized*)									
	Basic	0.11	0.17	0.09	0.56	0.11	0.19	0.09	0.5	
	Diluted	0.11	0.17	0.09	0.56	0.11	0.19	0.09	0.5	

and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended consolidated and standalone financial results are available on the Stock Exchange websites:- www.bseindia.com and on the Company's website www.supertannery.com. 2. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of Companies Act 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and relevant amendment thereafter. The said financial results of the Parent Company and its subsidiaries [together referred as the "Group"] have been prepared in accordance with Ind AS 110 - Consolidated financial statements".

Place: KANPUR Date: 12.08.2023 For and on Behalf of the Board of Directors Iftikharul Amin

Follow us on: x twitter.com/GMSRailway

www.readwhere.com

3. उपरोक्त निविदाओं की पूरी जानकारी के

नोट: यह उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का है कि

वह वेबसाइट पर बाद में अपलोड किये गये

किसी भी सुधार या संशोधन के लिये निर्गत

किसी भी शद्धिपत्र की जांच कर ले, और इसे

http://www.ireps.gov.in देखें।

ही निविदा प्रस्तृत करते समय ध्यान में रखे। Date: 12.08.2023

DIN: 00037469

Managing Director DIN: 00037424

7. Earnings Per Share (before & after extraordinary items) of Rs. 10/- each 3.31 3.51 5.97 20.29

3.31

3.51

for SELAN EXPLORATION TECHNOLOGY LTD.